



जल जीवन मिशन, हर घर जल



जल को हम बचायेंगे
देश में सुसहली लायेंगे

सौ.से. राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन (उ.प.)

गा.प. माधवपुर
ब्लॉक-कसमण्डा



जल जीवन मिशन, हर घर जल



जल को हम बचायेंगे
देश में सुसहली लायेंगे

सौ.से. राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन (उ.प.)

गा.प. माधवपुर
ब्लॉक-कसमण्डा



जल जीवन मिशन, हर घर जल



हर घर जल
जल से जल /

सौ.से. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (उ.प्र.)

H.R.

गा.पं. **मथनगर**
ब्लॉक - कंसमण्डा



जल जीवन मिशन, हर घर जल



जल को हम बचायेंगे
देश में सुसहली लायेंगे

सौ.से. राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन (उ.प.)

गा.प. माधवपुर
ब्लॉक-कसमण्डा



डॉ. पारग मेहता
प्रमुख वैद्य



डॉ. धनराज चव्हाण
मुख्य वैद्य



डॉ. अनंद देसाई
मुख्य वैद्य

क्या आप जानते हैं?



हर घर जल
अंतर्गत जीवन मिशन

पेयजल में रसायनिक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाने से मानव शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है

बोरॉन तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) को प्रभावित करता है

घाघ मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।

ब्लोराइड सोडियम को साव मिलकर तटुचाप में वृद्धि का कारण बनता है।

ब्रिंसा घटकों के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है एनीमिया का कारण बनता है और यदुक्तों में किडनी को नुकसान पहुंचाता है

नाइट्रेट शिशुओं में ब्लू-बेबी सिंड्रोम (मेथेमोग्लोबिनिमिया) का कारण बनता है।

फोस्फोरस से कभी होता है, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन प्रणाली को नुकसान होता है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली (इम्यून सिस्टम) को गंभीर नुकसान पहुंचाता है

कैल्शियम से कंकड़ और गुदों को पथरी (किडनी स्टोन) होती है।

फ्लोराइड दातों में सड़न पैदा करता है और दातों को नुकसान पहुंचाता है

सोडियम उल्टाओं को अधिक नुकसान पहुंचाता है जो पहले से ही हृदय, गुद और रक्त परिसंचरण के रोगों से पीड़ित हैं

लोहा (आयरन) पेट की बीमारियों में वृद्धि का कारण बनता है

सल्फेट मैग्नीशियम को साव मिलकर दस्त (डायरिया) का कारण बनता है

कोडिनियम हड्डियों पर प्रतिमूल प्रभाव बनता है

आर्सेनिक त्वचा रोगों और कैंसर का कारण बनता है

फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस, हड्डियों में विकार और जोड़ों में समस्या उत्पन्न होती है



जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण कर प्रायोगिक परिवारों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
अतः, एक साथ स्वच्छ पेयजल, सुरक्षित कल का संकल्प लें।